

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/ फाल्गुन 30, 1938	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 429
No. 117]	DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938	[N.C.T.D. No. 429

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 मार्च, 2017

सं. फा. एसईसी/दि.न.नि./सा.चुना./2017/8129.—आयोग की अधिसूचना संख्या सं. फा. एसईसी/दि.न.नि./सा.चुना./2017/6206 दिनांक: 16 फरवरी, 2017 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथा संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7ख के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या-3 में दर्शाये गये अधिकारी को उनके सामने कॉलम-4 में दर्शाये गये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिये मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ। मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त यह अधिकारी दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, नियम 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाये गये वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संमीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए जाते हैं।

तालिका

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

वार्ड नम्बर	वार्ड का नाम	पिछली प्रविष्टि	स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4
028-पू.	दिलशाद कॉलोनी	श्री प्रवीन कुमार उप आयुक्त, (औद्योगिक),	श्री बलराज सिंह उप-निदेशक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड,
029-पू.	विवेक विहार		

030-पू	झिलमिल	औद्योगिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 419, उद्योग सदन, पटपडगंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, बी-11, विकास कुटीर, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
031-पू	शाहदरा		

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

## STATE ELECTION COMMISSION

### NOTIFICATION

Delhi, the 20th March, 2017

**No. F./SEC/MCD/General Election/2017/8129.**—In partial modification of the Commission's Notification No. F./SEC/MCD/General Election/2017/6206 dated 16.02.2017. I, S. K. Srivastava, State Election Commissioner in pursuance of the powers conferred under section 7B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and under the provision of Rule 7 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, hereby appoint, in consultation with Govt. of NCT of Delhi, the officer shown in column No. 4 of the table below, as Electoral Registration officer for the wards of East Delhi Municipal Corporation of Delhi, shown in column No. 4 against. The Officer so appointed as Electoral Registration officer is also appointed as a Returning officer-cum-Scrutinizing officer for the words shown against, under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to East Delhi Municipal corporation as under:-

### TABLE

#### East Delhi Municipal Corporation

Ward No.	Ward Name	Previous entry	Substitute Revised entry
1	2	3	4
028-E	DILSHAD COLONY	Sh. Praveen Kumar Dy. Commissioner (Industries), Department of Industries, Govt. of NCT of Delhi 419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Estate, Delhi- 110092.	Sh. Balraj Singh Deputy Director, Delhi Urban Shelter Improvement Board, Govt. of NCT of Delhi, B-11, Vikas Kuteer, I.P. Estate, New Delhi-110002.
029-E	VIVEK VIHAR		
030-E	JHILMIL		
031-E	SHAHDARA		

S. K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner